



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940  
No. 923] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSAH 6, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1239(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 1 में, मद (19ठ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-  
“(19ठ) दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों के लिए भर्ती नियमों का विरचना या संशोधन करना।”

[सं. 39023/01/2018-स्था.(ख)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789, तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-

| क्रम सं. | सा.का.नि. संख्या | तारीख           |
|----------|------------------|-----------------|
| 1.       | 1197             | 20 दिसंबर, 1958 |
| 2.       | 1451             | 10 दिसंबर, 1960 |
| 3.       | 731              | 03 जून, 1961    |
| 4.       | 1047             | 26 अगस्त, 1961  |
| 5.       | 382              | 31 मार्च, 1962  |
| 6.       | 1644             | 08 दिसंबर, 1962 |
| 7.       | 1689             | 15 दिसंबर, 1962 |
| 8.       | 578              | 06 अप्रैल, 1963 |
| 9.       | 1888             | 14 दिसंबर, 1963 |
| 10.      | 679              | 02 मई, 1964     |
| 11.      | 431              | 20 मार्च, 1965  |
| 12.      | 599              | 24 अप्रैल, 1965 |
| 13.      | 1672             | 20 नवंबर, 1965  |
| 14.      | 388              | 19 मार्च, 1966  |
| 15.      | 622              | 30 अप्रैल, 1966 |
| 16.      | 944              | 18 जून, 1966    |
| 17.      | 1433             | 21 जून, 1969    |
| 18.      | 633              | 18 अप्रैल, 1970 |
| 19.      | 879              | 06 जून, 1970    |
| 20.      | 1654             | 06 नवंबर, 1971  |
| 21.      | 168              | 24 फरवरी, 1973  |

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 22. | 465(अ)            | 14 नवंबर, 1974   |
| 23. | 594               | 17 मई, 1975      |
| 24. | 2288              | 30 अगस्त, 1975   |
| 25. | 1063              | 24 जुलाई, 1976   |
| 26. | 610               | 14 मई, 1977      |
| 27. | 740               | 02 जून, 1979     |
| 28. | 441(अ)-शुद्धिपत्र | 14 जुलाई, 1979   |
| 29. | 73                | 23 जनवरी, 1982   |
| 30. | 480 - शुद्धिपत्र  | 29 मई, 1982      |
| 31. | 481               | 29 मई, 1982      |
| 32. | 329               | 06 अप्रैल, 1985  |
| 33. | 479               | 18 मई, 1985      |
| 34. | 512               | 01 जून, 1985     |
| 35. | 918               | 05 अक्टूबर, 1985 |
| 36. | 59                | 25 जनवरी, 1986   |
| 37. | 268               | 12 अप्रैल, 1986  |
| 38. | 1071              | 20 दिसंबर, 1986  |
| 39. | 273               | 18 अप्रैल, 1987  |
| 40. | 74                | 06 फरवरी, 1988   |
| 41. | 590               | 23 जुलाई, 1988   |
| 42. | 704               | 23 सितंबर, 1989  |
| 43. | 37                | 20 जनवरी, 1990   |
| 44. | 623               | 6 अक्टूबर, 1990  |
| 45. | 666               | 30 नवंबर, 1991   |

|     |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|
| 46. | 383(अ)           | 24 मई, 1999      |
| 47. | 219              | 17 जुलाई, 1999   |
| 48. | 88               | 17 फरवरी, 2001   |
| 49. | 54               | 8 फरवरी, 2003    |
| 50. | 232              | 14 जून, 2003     |
| 51. | 405              | 22 नवंबर, 2003   |
| 52. | 67               | 6 मार्च, 2004    |
| 53. | 247              | 23 जुलाई, 2005   |
| 54. | 349              | 8 अक्टूबर, 2005  |
| 55. | 204(अ)           | 03 अप्रैल, 2006  |
| 56. | 134              | 10 जून, 2006     |
| 57. | 567(अ)           | 30 जुलाई, 2008   |
| 58. | 297(अ)           | 30 अप्रैल, 2009  |
| 59. | 544(अ)           | 22 जुलाई, 2009   |
| 60. | 727(अ)           | 7 अक्टूबर, 2009  |
| 61. | 12(अ)            | 6 जनवरी, 2010    |
| 62. | 57(अ) शुद्धिपत्र | 3 फरवरी, 2010    |
| 63. | 788(अ)           | 29 सितम्बर, 2010 |
| 64. | 472(अ)           | 21 जून, 2011     |
| 65. | 596(अ)           | 28 जुलाई, 2012   |
| 66. | 620 (अ)          | 11 सितम्बर, 2013 |
| 67. | 691 (अ)          | 17 अक्टूबर, 2013 |
| 68. | 773(अ)           | 11 दिसंबर, 2013  |
| 69. | 11(अ)            | 10 जनवरी, 2014   |

|     |         |                 |
|-----|---------|-----------------|
| 70. | 491(अ)  | 15 जून, 2015    |
| 71. | 556(अ)  | 15 जुलाई, 2015  |
| 72. | 655(अ)  | 25 अगस्त, 2015  |
| 73. | 1002(अ) | 22 दिसंबर, 2015 |
| 74. | 199(अ)  | 27 फरवरी, 2016  |
| 75. | 483(अ)  | 04 मई, 2016     |
| 76. | 519(अ)  | 26 मई, 2017     |

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

**(Department of Personnel and Training)**

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

**G.S.R. 1239(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in Schedule I, after item (19 K) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

“(19 L) framing or amendment of recruitment rules for Group ‘B’ (Non-Gazetted) posts under the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli”.

[No. 39023/01/2018-Estt.(B)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 789, dated the 13th September, 1958 and subsequently amended vide the following notifications, namely:-

| S.No. | G.S.R. No. | Date                            |
|-------|------------|---------------------------------|
| 1.    | 1197       | 20 <sup>th</sup> December, 1958 |
| 2.    | 1451       | 10 <sup>th</sup> December, 1960 |
| 3.    | 731        | 03 <sup>rd</sup> June, 1961     |
| 4.    | 1047       | 26 <sup>th</sup> August, 1961   |
| 5.    | 382        | 31 <sup>st</sup> March, 1962    |
| 6.    | 1644       | 08 <sup>th</sup> December, 1962 |
| 7.    | 1689       | 15 <sup>th</sup> December, 1962 |
| 8.    | 578        | 06 <sup>th</sup> April, 1963    |
| 9.    | 1888       | 14 <sup>th</sup> December, 1963 |

|     |                    |                                  |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| 10. | 679                | 02 <sup>nd</sup> May, 1964       |
| 11. | 431                | 20 <sup>th</sup> March, 1965     |
| 12. | 599                | 24 <sup>th</sup> April, 1965     |
| 13. | 1672               | 20 <sup>th</sup> November, 1965  |
| 14. | 388                | 19 <sup>th</sup> March, 1966     |
| 15. | 622                | 30 <sup>th</sup> April, 1966     |
| 16. | 944                | 18 <sup>th</sup> June, 1966      |
| 17. | 1433               | 21 <sup>st</sup> June, 1969      |
| 18. | 633                | 18 <sup>th</sup> April, 1970     |
| 19. | 879                | 06 <sup>th</sup> June, 1970      |
| 20. | 1654               | 06 <sup>th</sup> November, 1971  |
| 21. | 168                | 24 <sup>th</sup> February, 1973  |
| 22. | 465(E)             | 14 <sup>th</sup> November, 1974  |
| 23. | 594                | 17 <sup>th</sup> May, 1975       |
| 24. | 2288               | 30 <sup>th</sup> August, 1975    |
| 25. | 1063               | 24 <sup>th</sup> July, 1976      |
| 26. | 610                | 14 <sup>th</sup> May, 1977       |
| 27. | 740                | 02 <sup>nd</sup> June, 1979      |
| 28. | 441(E)-Corrigendum | 14 <sup>th</sup> July, 1979      |
| 29. | 73                 | 23 <sup>rd</sup> January, 1982   |
| 30. | 480 – Corrigendum  | 29 <sup>th</sup> May, 1982       |
| 31. | 481                | 29 <sup>th</sup> May, 1982       |
| 32. | 329                | 06 <sup>th</sup> April, 1985     |
| 33. | 479                | 18 <sup>th</sup> May, 1985       |
| 34. | 512                | 01 <sup>st</sup> June, 1985      |
| 35. | 918                | 05 <sup>th</sup> October, 1985   |
| 36. | 59                 | 25 <sup>th</sup> January, 1986   |
| 37. | 268                | 12 <sup>th</sup> April, 1986     |
| 38. | 1071               | 20 <sup>th</sup> December, 1986  |
| 39. | 273                | 18 <sup>th</sup> April, 1987     |
| 40. | 74                 | 06 <sup>th</sup> February, 1988  |
| 41. | 590                | 23 <sup>rd</sup> July, 1988      |
| 42. | 704                | 23 <sup>rd</sup> September, 1989 |
| 43. | 37                 | 20 <sup>th</sup> January, 1990   |
| 44. | 623                | 06 <sup>th</sup> October, 1990   |
| 45. | 666                | 30 <sup>th</sup> November, 1991  |
| 46. | 383 (E)            | 24 <sup>th</sup> May, 1999       |
| 47. | 219                | 17 <sup>th</sup> July, 1999      |

|     |                   |                                  |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 48. | 88                | 17 <sup>th</sup> February, 2001  |
| 49. | 54                | 08 <sup>th</sup> February, 2003  |
| 50. | 232               | 14 <sup>th</sup> June, 2003      |
| 51. | 405               | 22 <sup>nd</sup> November, 2003  |
| 52. | 67                | 6 <sup>th</sup> March, 2004      |
| 53. | 247               | 23 <sup>rd</sup> July, 2005      |
| 54. | 349               | 08 <sup>th</sup> October, 2005   |
| 55. | 204(E)            | 03 <sup>rd</sup> April, 2006     |
| 56. | 134               | 10 <sup>th</sup> June, 2006      |
| 57. | 567(E)            | 30 <sup>th</sup> July, 2008      |
| 58. | 297(E)            | 30 <sup>th</sup> April, 2009     |
| 59. | 544(E)            | 22 <sup>nd</sup> July, 2009      |
| 60. | 727(E)            | 7 <sup>th</sup> October, 2009    |
| 61. | 12(E)             | 6 <sup>th</sup> January, 2010    |
| 62. | 57(E) Corrigendum | 3 <sup>rd</sup> February, 2010   |
| 63. | 788(E)            | 29 <sup>th</sup> September, 2010 |
| 64. | 472(E)            | 21 <sup>st</sup> June, 2011      |
| 65. | 596(E)            | 28 <sup>th</sup> July, 2012      |
| 66. | 620 (E)           | 11 <sup>th</sup> September, 2013 |
| 67. | 691 (E)           | 17 <sup>th</sup> October, 2013   |
| 68. | 773(E)            | 11 <sup>th</sup> December, 2013  |
| 69. | 11 (E)            | 10 <sup>th</sup> January, 2014   |
| 70. | 491(E)            | 15 <sup>th</sup> June, 2015      |
| 71. | 556(E)            | 15 <sup>th</sup> July, 2015      |
| 72. | 655(E)            | 25 <sup>th</sup> August, 2015    |
| 73. | 1002(E)           | 22 <sup>nd</sup> December, 2015  |
| 74. | 199(E)            | 27 <sup>th</sup> February, 2016  |
| 75. | 483(E)            | 4 <sup>th</sup> May, 2016        |
| 76. | 519(E)            | 26 <sup>th</sup> May, 2017       |